



Since
March 2002

An International,
Registered & Referred
Monthly Journal :

History

Research Link - 131, Vol - XIII (12), February - 2015, Page No. 69-70
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2014 - 1.8007

Food Items Consumed By The Gond Tribals (Bastar, C.G.)

During the rainy season the mushroom which is collected from forests is locally called 'Putu'. In this region the production of 'Boda' & 'Putu' is very large & it is full of protein. Gonds use different types of Putus, they mainly use Pairaa putu, Raajbhodo putu, Sarai putu, Baans putu, Bhaat putu, Chirko putu etc. It is produced only in heavy rainfall. It is also called 'Pihri', apart from this 'Boda' which is a potato shaped, white or black vegetable is produced during heavy rainfall in the nodule of Sarai tree.

DR. SARITA UIKE

The Gond tribals of the Bastar region eat very simple but amazing food items. They eat both vegetarian as well as non vegetarian food. Amongst vegetarian food they usually eat paje, bhaaji (leafy vegetables), baasi, chapatti, pulses, rice & different kinds of underground fruits etc. The consumption of paje as their food is popular amongst them from centuries.

Paje : It is a type of thin liquid which is used as a food item. This paje is prepared by the grains of Rice, Kodo, Kutki, Corn, Madia, Kosra, Sava etc. For this the grains are grinded coarsely & cooked well so as to get the liquid texture. This food is very easy to digest, contains high amount of carbohydrate, fulfills the deficiency of water & helps in the maintenance of suitable water balance in the body.

Baasi : It is a dish in which stale rice is put in the water & in the morning salt is added to it & it is eaten along with the chutney. It is a type of breakfast, very simple & easy to digest. Because Chhattisgarh has hot & humid climate, baasi is used as a coolant for the body. It has its existence from decades.

Chapatti : In Gond tribe there are different variety of chapatti like Chuni roti (chapatti), Paan roti, Khapori roti, Saada roti etc.

(1) Chuni Roti : It is a type of chapatti prepared from the choker of different types of grinded grains. In this wheat, rice, gram, pulses are grinded in the traditional conveyer of the house & these come out as Atta. This coarse atta is in the form of Chokar by which a thick chapatti is made which is very nutritious.

(2) Paan Roti : It is a type of thick chapatti which is prepared from the chaawal (rice) atta. Both the sides of the chapatti are covered with Paan leaves & is kept in the angaar (burning coal). It is very tasty to eat.

(3) Khapori Roti : This chapatti is prepared by the mixture of chaawal atta & cooked rice. It is cooked in 'Kalle' (a tawa made of soil).

(4) Saada Roti : The normal chapatti of wheat which is cooked now a days is called saada roti.

In Chhattisgarh because the production of rice is very large, the chapattis made of rice & its atta are eaten usually. The carbohydrate content is high comparatively.

Bhaat : In Bastar region the Gonds usually eat the

Bhaat of rice, kodo & kutki as their main course. They also use the finest & very aromated rice. This type of rice is found only in Bengal.

Daal (Pulses) : Mainly Raahar, chana, moong, urad, lakhri & tuwar pulses are used. Apart from these Hirwa, jhurga, kulthi, semi, til (sesame), sarso (mustard) etc. are also used as their food.

Tori tel (oil), mustard oil, castor oil, sesame oil, groundnut oil are used in cooking & also as a fuel.

Different types of vegetables & leafy vegetables used :

If someone wishes to see the proverb 'Bhaaji mei bhagwaan raaji' practically then they should only visit Chhattisgarh. Here, not only in the food but also in Teej festival, different customs, traditions & in religious works vegetables are seen as important factors. In Gond tribe during the marriage there is a custom in which the groom eats Laal bhaaji (laal saag) by his sister in law, this is to test the intelligence & smartness of the groom. During Halshashti (kamarchhath) pooja the ladies prepare 6 types of Bhaaji. In Gond tribe during the month of Saawan-Bhado a special festival called 'Bhaaji tihar (tyohar)' is celebrated which is also known as 'Dara Jogani'. In this festival the Bhaaji is offered to the deities & only after that it is consumed. During the Dussehra they hang the Raini leaves in their ears & after that they hug each other. In this way even a small vegetable become so important for their life.

In Bastar Gonds eat enormous varieties of Bhaaji which is very beneficial for health. Mainly they eat Patwa bhaaji, Kaanda bhaaji, Urid bhaaji, Karmatta bhaaji, Kauba bhaaji, Keni bhaaji, Kumhada bhaaji, Anda bhaaji, Koliyari bhaaji, Kochai bhaaji, Khotni bhaaji, Chunchuniya bhaaji, Kusum bhaaji, Gobhi bhaaji, Chana bhaaji, Lakhdi bhaaji, Charota bhaaji, Chench bhaaji, Chaulai bhaaji, Channori bhaaji, Tinpania bhaaji, Methi bhaaji, Paalak bhaaji, Bhathua bhaaji, Laal bhaaji, Murai bhaaji, Sarso bhaaji, Poi bhaaji, Sukma bhaaji, Bohaar bhaaji, Purpuri bhaaji, Pakri bhaaji, Sarota bhaaji, Pyaaj bhaaji, Jilo bhaaji, Jhuranga bhaaji, Machhariya bhaaji, Ramkaliya bhaaji, Gudru bhaaji, Gumti bhaaji, Kheda bhaaji, Munga bhaaji, Kheksi bhaaji, Gumi bhaaji, Barra bhaaji, Muskeni bhaaji, Laakha bhaaji, Jaimangal bhaaji etc.

Assistant Professor (Department of History), Govt. College Charama, Distt. Kanker (Chhattisgarh)

Apart from the bhaajis different varieties of vegetables are also consumed by them like Aalu (potato), Bhaata (brinjal), Murai(radish), Menhar, Tuma (indigenous bottlegourd), Lauki (bottlegourd), Kumhada (pumpkin), Dorka, Turai, Galinch, Semi, Barbatti, Ramkaliya (ladyfinger), Churchutiya, Munga (drums), Kheksi, Jari, Bangaala (tomato), Paatali (smalltomatoes), Bhijri, Mircha (chilli), Dhaniya (coriander), Lasun (garlic), Kakdi (cucumber), Kundru, Karela (bittergourd), Gondli (onion), Amla (tamarind), Kochai, Dhens, Adrak (ginger), Papaya, Kera (kela/banana), Carrot, Mint etc. are mainly found in this region. There are so many proverbs associated with vegetables & bhaajis. For example-If someone's face is looking very tired in sunlight they say in Chhattisgarhi- "हाय!कईसे शलाल भाजीशकस अईलागे हस". In other words these things are also used in day to day talks.

In this region when people meet specially the ladies they forget all joys & sorrows and firstly ask "ते का साग खाए हस बो"(what have you eaten today) or "तोर घर मां का साग बनाइस हे?"(what has your mother prepared today). In other words this is the characteristic feature of Gonds that they initiate their talk mainly with vegetables & foods.

Kaanda : Apart from the vegetables underground fruits have also got significance amongst gonds. Underground fruits(kaanda) like Paataal kaanda, Naagar kaanda, Kohda kaanda, Koliya kaanda, Tandri kaanda, Tarangiya kaanda, Tikhur, Farsa kaanda, Semhar, Siring kaanda, Sooran kaanda, Daang kaanda, Baali kaanda, Jimi kaanda, Gaura kaanda, Dhivna kaanda, Jhagdain kaanda, Sakar kaanda, Gurchu kaanda, Kheska kaanda etc. are full of starch & are consumed by Gonds in large quantities.

Putu/Futu (Mushroom) : During the rainy season the mushroom which is collected from forests is locally called 'Putu'. In this region the production of 'Boda' & 'Putu' is very large & it is full of protein. Gonds use different types of Putus, they mainly use Pairaa putu, Raajbhodo putu, Sarai putu, Baans putu, Bhaat putu, Chirko putu etc. It is produced only in heavy rainfall. It is also called 'Pihri', apart from this 'Boda' which is a potato shaped, white or black vegetable is produced during heavy rainfall in the nodule of Sarai tree.

Kareel : During the rainy season the soft cones of Bamboo are used as Kareel vegetable. Maria & Muria Gonds eat kareel in large quantities. The still shortened form of kareel is called 'Baasta' & is also eaten. The kareel is also used to cure stone & worms of the stomach. It is also given to pregnant ladies for the benefit of their health.

The Gond tribals also eat roasted mahua, sivna, chaar, dried tendu, ber, siyaadi seeds, roasted bhelwa, karonda, doomar, tamarind etc.

Some vegetables are dried & in the summer season when the quantities of fresh green vegetables are less at that time the dried vegetables are consumed. The dried forms are called 'Khula' or 'Khaila'. It is also called 'Khuksa'. Some forms of dried vegetables are- Bangaala (tomato) khula, Semi khula, Aama (mango) khula, Chana bhaaji khuksa, Chakoda bhaaji khuksa, Lakhti bhaaji khuksa, Kareel khula etc.

Non Vegetarian Food :

As compared to the vegetarian food, Gonds eat non vegetarian food more. They mainly eat the flesh of chicken, mutton, pig, pigeon, turkey, biter, lawa, rabbit, peacock, turtle, heron, kotri, padki, wild chicken, mouse, kewda,

squirrel, fish, prawn, snail, lamb etc.

Dr. Hiralal shukl writes that they also used to eat the flesh of lizard, crocodile, snake & even cat! The dried form of fish called 'Suksi' is also kept for cooking. Suksi can be cooked with any regular vegetable like Brinjal, Munga, Turai, Pumpkin, Potato, Bottlegourd, Grams & even with some bhaajis. Apart from these the eggs of different types of birds are also eaten.

The big brown ants living in Mango trees are specially eaten in Bastar region. They sauté it in a bit of oil, salt & chilli after it they add tamarind pulp & the dish gets ready. This ant is called 'Chapoda'. In some places like Narayanpur, Chhota dongar, Barsur, Pakhanjur etc. these ants are sold in bazaars. According to the chemists these ants contain Formic acid & as a result it tastes sour & spicy. It is something like drinking a strong cold drink. It is also used in some drinks.

Drinks :

'Salfi Juice' : In Bastar the tribals are very fond of natural drinks, apart from the Mahua they also use the juice of Salfi, date palm etc. as an alcohol. Small amount of alcohol is found in the salfi juice. They cut a part of the tree by tools & the juice is collected in the pots or other dishes. A Gond family of Bastar can give the whole day collecting the salfi juice. Sometimes it also leads to fighting. After drinking it people become very fat. It must be noted that the salfi juice is also known as "Bastar Beer". Some families also gift a salfi tree to their son-in-law as dowry.

Laanda : Laanda is also used as a drink, it is also very popular in this region. For making Laanda coarsely grinded rice, kodo or corn are soaked overnight in water & is grinded further with a stone, after that it is boiled for a long time & a sour thing is added to it. Some grains are boiled without grinding & it is left undisturbed for 6-7 days & when it becomes sour it is eaten as 'Laanda'. Its alcoholic content is very high.

Gonds make cones of the tendu leaves & fill tobacco in it after that they light it & use it as Chongi (Chilam). Sometimes they use drugs also. Since 1970s the use of Beedis has increased markedly. In this region people can be always found eating tobacco & doing gudakhus/manjans. It is not good health. The time of eating food is fixed, farmers eat 3 meals in the day time & a meal in the evening. Their food is not spicy, they eat very simple food.

References :

- (1) Kusraam phoolsingh, village-Surewahi, personal interview, 31/05/2008.
- (2) Aachla kawalsingh, village Surewahi, personal interview, 31/05/2008.
- (3) Thakur jaisingh, Dudhawa, personal interview, 01/06/2008.
- (4) Naag premsingh, village-Dhanora, personal interview, 02/06/2008.
- (5) Thakur pt. kedarnath-Bastar bhushan, pg.47.
- (6) Otti Usha, vill. Basanwahi, personal interview, 03/06/2008.
- (7) Thakur Gomti bai, vill. Charama, personal interview, 04/06/2008.
- (8) Thakur pt. kedarnath-Bastar bhushan, pg.29.
- (9) Paloti masru ram, vill. Navagawadegaon (antagarh), personal interview, 5/07/2009.
- (10) Salaam dhansaay, vill. Siltara, personal interview, 06/07/2009.
- (11) Chopra pramod-Chhattisgarh paryatan bharti, pg.31, yr 2000.
- (12) Elwin Verrier-The Murias & their Ghotul, pg.33,36.
- (13) Taaram patiram, vill. Temrupaani, personal interview, 11/01/2009.
- (14) Shukl Dr. Hiralal & Russell-The tribes & caste of the central provinces, pg.128.
- (15) Chopra pramod-Chhattisgarh paryatan bharti 2007, pg.8,9&23.
- (16) Tekam chidraa, vill. Panchangi, personal interview, 12/01/2009.





Since
March 2002

An International,
Registered & Referred
Monthly Journal :

History

Research Link - 131, Vol - XIII (12), February - 2015, Page No. 71-72
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2014 - 1.8007

दलितों के सुधारवादी आंदोलन

प्रस्तुत शोधपत्र दलितों के सुधारवादी आंदोलन के विश्लेषण से सम्बंधित है। दलित आंदोलन युग का शुभारंभ बुद्ध काल से शुरू होकर अम्बेडकर काल तक चला। डॉ.अम्बेडकर के समय दलित आंदोलन सम्पूर्ण भारत में फैल चुका था। महाराष्ट्र में अनेक संत व गुरु हुए, जिन्होंने दलित आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनमें गुरु गाडगे बाबा का नाम प्रमुख है। इन सब आंदोलनकारियों का बीजारोपण जो खासकर अंग्रेज काल में हुआ, उसके पुरोधा महामना ज्योतिबाराव फुले थे। डॉ.अम्बेडकर ने फुले को अपना गुरु माना है। इसी बात से समझा जा सकता है कि ज्योतिबाराव कितने महान क्रांतिकारी थे। दलित आंदोलन की सफलता के परिणामस्वरूप स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान की रचना हुई, जिसमें दलित जातियों को विशेष अधिकार प्राप्त हुए। आज दलितों की थोड़ी बहुत उन्नति हुई है, वह सब इन आंदोलनों का ही परिणाम है।

डॉ.अंगदसिंह दोहरे

दलितों के सुधार हेतु हर युग में आन्दोलन चलाए गए हैं। बुद्ध ने "बहुजन हिताय – बहुजन सुखाय" का संदेश लेकर जन आंदोलन चलाया, जिसके फलस्वरूप अशोक के काल में भारतीय दलित जो उस समय शूद्रातिशूद्र कहलाते थे, की सामाजिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आया। अशोक के वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ हुआ, जो वर्तमान मध्य प्रदेश के विदिशा का राजा था। पुष्यमित्र शुंग को वृहद्रथ ने तीनों सेनाओं का सेनापति बनाया था जिसने आगे चल कर वृहद्रथ की शस्त्रागार में निरीक्षण के दौरान गला रेतकर हत्या कर दी। शुंग शासक बना। उसने सम्राट अशोक व उसके वंशजों द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्यों पर पर्दा डाल दिया व बौद्धों की परंपराओं व विहारों को नष्ट करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया।

कुछ इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में बौद्ध विहारों का भारी मात्रा में निर्माण कराया। दरअसल उस कार्य को निर्माण कार्य नहीं बल्कि बौद्ध लोगों को सांत्वना देने एवं उन्हें बहलाने-फुसलाने के लिए किया जाना समझना चाहिए। उसके बाद बौद्धों को दलित व दरिद्र बना दिया गया था। उनको किसी लायक नहीं छोड़ा। समय-समय पर दलितों में महापुरुष होते रहे हैं। उन्होंने अपने समाज के लिए आन्दोलन चलाए। कबीर भी उनमें से एक थे जिन्होंने दलितों में जीवन भर जनजागृति लाने का कार्य किया।

कबीर के ही समकालीन रविदास हुए जिन्होंने दलितों के दमन के विरुद्ध धार्मिक जंग छेड़ी। लेकिन कबीर व रविदास को संत कहकर उनका अंत करने की कोशिश की गई। उन्हें केवल भगवान का भक्त बता दिया गया। सच तो यह है कि वे तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था जो गैर बराबरी पर आधारित थी, के विरोधी थे। उन्होंने जन-जागृति आंदोलन चलाए, जो आगे चलकर सिख लोगों के लिए धर्म ही बन गए।

सिखों ने कबीर, नानक व रविदास के शब्दों को अपने धर्म का

आधार बनाया। आगे चलकर दलितों के उत्थान के लिए 20वीं शताब्दी में संयुक्त पंजाब में "आद धर्म" आन्दोलन चलाया गया। उत्तर प्रदेश में स्वामी अछूतानंद के नेतृत्व में 'आदि हिन्दू' आन्दोलन चला जिसे उत्तर भारत में काफी बल मिला। आन्ध्र प्रदेश में 'आदि आंध्रा' और कर्नाटक में 'आदि कर्नाटक' नामक आंदोलन चले। तमिलनाडु में 'आदि द्रविण' नामक आंदोलन उठाया गया। ये सब आदि धर्म के आंदोलन बौद्ध धर्म के ही आंदोलन थे। बुद्ध की बातों को लोग अपने-अपने ढंग से कहने का प्रयास कर रहे थे। सतनाम सिंह अपनी पुस्तक 'चमार जाति का गौरवशाली इतिहास' में लिखते हैं –

"संयुक्त पंजाब में बाबू मंगूराम मुंगोपालिया जी ने 1925 में 'आदधर्म मण्डल' की नींव रखी। इस मण्डल का मानना था कि हम मूल निवासी हैं और हमारा धर्म आद धर्म है। हमारे झण्डे का रंग मजीठा (लाल) है। आद धर्म का अभिवादन जयगुरुदेव या जयभीम है।"⁽¹⁾ वे आगे लिखते हैं "सन् 1969 में जब मण्डल बिखर चुका था इसे पुनः संगठित किया मंगूराम जसपाल नामक युवक ने। यह जूनियर मंगूराम कके नाम से विख्यात हुआ। इंग्लैण्ड से लौटकर इन्होंने मृत पड़े मण्डल के अंदर नई जान फूँकी लेकिन राजनीतिक विचार धाराओं में बटे दलितों के बीच वे अपने नए आदधर्मी मण्डल को लम्बे समय तक नहीं चला सके।"⁽²⁾

सतनाम सिंह लिखते हैं कि दलितों के संबंध में बाबू मंगूराम को काफी सफलता मिली। पंजाब में उन्हें 'मोदी इंकलाब दा' के नाम से याद किया जाता है। उन्हें नौ सफलताएं मिली वे निम्नलिखित हैं – (1) दलितों का शिक्षा, स्वच्छता की तरफ रुझान करने तथा स्कूल फीस में उनके लिए रियायत करवाने में सफलता मिली। (2) कृषि भूमि खरीदने का दलितों को अधिक दिलाया। (3) सार्वजनिक स्थलों के उपयोग का दलितों को अधिकार दिलाया। (4) सार्वजनिक स्थलों पर दलितों को पानी भरने का हक प्राप्त हुआ। (5) दलितों में फिजूल खर्ची, नशाखोरी में कमी आई, वे अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध करने लगे। अपने इतिहास व

भविष्य के प्रति जागरूक हुए। (6) दलितों को अपनी संगठन शक्ति का ज्ञान हुआ और वे अपने मसीहा व गुरु रविदास तथा बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम तथा उनके कार्यों एवं विचारों से परिचित हुए।⁽⁶⁾

इसी प्रकार 'आदि हिन्दू' नामक आंदोलन को स्वामी अछूतानंद ने शुरु किया। उनके आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयास किया गया किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वे न केवल सामाजिक रूप से लोगों को तैयार करते थे बल्कि अँग्रेज अफसरों के समक्ष उपस्थित होकर दलित लोगों की लड़ाई लड़ते थे। स्वामी अछूतानंद का बचपन का नाम हीरालाल था। उन्होंने आगे चलकर आर्य समाज को अपना लिया जहाँ उनका नाम हरीहरानंद हुआ। छुआछूत की भावना आर्य समाज में भी थी इसलिए उन्होंने यहाँ से विदा ली और 'अछूत महासभा' का गठन किया। उत्तर भारत के सारे अछूतों को उन्होंने इकट्ठा किया और जन आंदोलन चलाया। लोग उन्हें सम्मान से स्वामी अछूतानंद कहते थे। बाबासाहेब अम्बेडकर से सम्पर्क कर अछूतानंद जी ने इस आंदोलन को और अधिक आगे किया और सम्पूर्ण भारत को अपना कार्यक्षेत्र बनाया।

सन् 1927 में बाबासाहेब की सिफारिश पर साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन अँग्रेज इसके अध्यक्ष थे। इसका एक मात्र उद्देश्य था भारत में दलितों की दुर्दशा का सर्वे करना। यहाँ के नेताओं ने साइमन कमीशन का भरपूर विरोध किया। स्वामी अछूतानंद जी की 'अछूत महासभा' साइमन कमीशन का सहयोग करती थी और सर्वे कार्य में पूरा योगदान देती थी, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर दलितों के हित में कानून बने। इस कार्य को करते स्वामी जी को अनेक संकट उठाने पड़े। उस समय देश में दलितों की हालत अच्छी नहीं थी। महाराष्ट्र में पेशवाओं ने इतने जुल्म ठहाये थे कि उनका वर्णन करना संभव नहीं है। दलितों को दिन के समय सार्वजनिक गलियों में तक चलने का अधिकार नहीं था।

बुंदेलखण्ड में दलितों की तत्कालीन स्थिति और अब की स्थिति : उस समय बुंदेलखण्ड में दलितों की स्थिति बहुत खराब थी। आज भी वे कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं। यहाँ स्वतंत्रता के बाद से अब तक कुछ परिवर्तन हुआ है। डॉ. काशी प्रसाद त्रिपाठी अपनी पुस्तक 'बुन्देलखण्ड का सामाजिक-आर्थिक इतिहास' में लिखते हैं - "सन् 1948 ई. में राजतंत्रीय व्यवस्था समाप्त हुई एवं जागीरदारी जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि विकास अधिनियम 1951-52 ई. के लागू होने के पश्चात् बुंदेलखण्ड की सभी जमींदारियाँ एवं जागीरें समाप्त हो गई थीं। जिसके परिणामस्वरूप समूची भूमि भूमिहीन जैसे कार्मिक वर्गों में वितरित कर उन्हें भूमि के रूप में पट्टे देकर भूमि स्वामी बना दिया गया था। सभी ब्राह्मण-ठाकुर थोड़ी-थोड़ी भूमि के पट्टेदार रह गए थे।"⁽⁴⁾

काशी प्रसाद जी आगे लिखते हैं, "आजादी के पश्चात् स्वतंत्रयोत्तर युग की पीढ़ी ने शहीदों की कुर्बानी को याद नहीं रखा। उन्हें पता नहीं कि आजादी कैसे प्राप्त हुई? आजादी की जंग में पीढ़ी दर पीढ़ी कितने शहीदों ने बलिदान दिया। पुरानी पीढ़ी के शहीदों के खून से सिंचित आजादी के फल की रोटी नई पीढ़ी के लोग खाने लगे थे। आजादी से रोटी मिली तो ऐसा लगने लगा कि शायद नई पीढ़ी जातिवाद, सम्प्रदायवाद, धनबल, बाहुबल एवं सामंती तौर तरीकों की ओर घूमने लगी है। जबकि उसे राजनीतिक चस्का के बजाय सामाजिक एकता एवं जातीय सामंजस्य, सह-अस्तित्व समान

सामाजिक न्याय, सत्य अहिंसा एवं ईमानदारी जैसे मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों से समाज को उबारते हुए भय मुक्त, विज्ञानोन्मुखी समाज की संरचना में लग जाना चाहिये था। क्योंकि सरकार और सत्ता समाज की ही पैदाइश है। समाज सुधरेगा तो सरकार एवं सत्ता स्वयं सुधरेगी।"⁽⁶⁾

आज भी दलितों के हालात पूरे देश में खराब हैं। दक्षिण भारत में भी आदि धर्म आंदोलन चले जिनमें 'आदि द्रविण' आंदोलन सर्वाधिक प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत के आंदोलनकारियों में रामास्वामी पेरियर का नाम प्रमुख है। 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ। उस समय सम्पूर्ण भारत आजादी की खुशियाँ मना रहा था, रामास्वामी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हें पता था कि यह आजादी दलितों के लिए तो तथाकथित आजादी थी क्योंकि उसमें सत्ता सीधे गुलाम राजतंत्रों के हाथों में हस्तांतरित हो रही थी। रामास्वामी अपना आन्दोलन आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि सही मायने में दलितों को आजादी मिलना अभी बाकी था। सन् 1949 में उन्होंने अपने आंदोलन को और तेज करने के उद्देश्य से अपनी पार्टी का एक बहुत की क्रांतिकारी महिला मानी पम्पई से विवाह कर लिया जिसको लेकर उनके सहयोगियों में नाराजगी आई। परिणामस्वरूप सी.एन.अन्नादुराई ने काणगम पार्टी छोड़कर द्रविण मुनेत्र कझगम (डी.एम.के.) पार्टी गठित की। रामास्वामी मूलतः काँग्रेस के नेता थे, लेकिन उन्होंने इसकी नीतियों को अच्छा नहीं माना और सन् 1952 में स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव में पेरियर ने काँग्रेस का खुलकर विरोध किया। सन् 1954 में एक बहुत बड़ी बुद्धिस्ट कान्फ्रेंस की और आगे चल कर 3 दिसम्बर 1954 को बर्मा में आयोजित वर्ल्ड कान्फ्रेंस में शामिल हुए। उसी समय बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर महाराष्ट्र में 'बहिस्त हितकारिणी सभा' बनाकर आंदोलन चहा रहे थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अपने सामाजिक आंदोलन चलाए जिनमें 'कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह' व 'महाड़ चवदार तालाब' का आंदोलन प्रमुख हैं। रामास्वामी पेरियर काँग्रेस छोड़कर बाबासाहेब अम्बेडकर के साथ आ गए। इस प्रकार दलित आंदोलन युग का शुभारंभ बुद्ध काल से शुरु होकर अम्बेडकर काल तक चला। डॉ. अम्बेडकर के समय दलित आंदोलन सम्पूर्ण भारत में फैल चुका था। महाराष्ट्र में अनेक संत व गुरु हुए जिन्होंने दलित आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनमें गुरुगाडगे बाबा का नाम प्रमुख है। इन सब आंदोलनकारियों का बीजारोपण जो खासकर अँग्रेज काल में हुआ, उसके पुरोधा महामना ज्योतिबाराव फुले थे। डॉ. अम्बेडकर ने फुले को अपना गुरु माना है। इसी बात से समझा जा सकता है कि ज्योतिबाराव कितने महान् क्रांतिकारी थे।

दलित आंदोलन की सफलता के परिणामस्वरूप स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान की रचना हुई जिसमें दलित जातियों को विशेष अधिकार प्राप्त हुए। आज दलितों की थोड़ी बहुत उन्नति हुई है, वह सब इन आंदोलनों का ही परिणाम है।

संदर्भ :

- (1) सिंह, सतनाम : चमार जाति का गौरवशाली इतिहास, समय प्रकाशन नई दिल्ली 2014, पृष्ठ 205.
- (2) उपरोक्त, पृष्ठ 209.
- (3) उपरोक्त, पृष्ठ 209.
- (4) त्रिपाठी, डॉ. काशीप्रसाद : बुंदेलखण्ड का सामाजिक-आर्थिक इतिहास, समय प्रकाशन नई दिल्ली 2006, पृष्ठ 184.
- (5) उपरोक्त, पृष्ठ 186.

